

जनपद बाराबंकी

दिनांक 13.10.2020

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12/13.10.2020 को कुल 16 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 20 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

➡ थाना सुबेहा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद।

आज दिनांक 13.10.2020 को थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुड्डू पुत्र स्व० भोला प्रसाद रावत निवासी पूरे अली खां मजरे चिरैया थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सुबेहा पर मु०अ०सं० 245/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

➡ थाना कोतवाली नगर एन्टीरोमियो टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर एन्टीरोमियो टीम द्वारा दिनांक 12.10.2020 को अभियुक्तगण 1. मो० सरताज पुत्र मो० इंद्रीश निवासी न्यू कालोनी सुमितनगर रिंग रोड शुभम मार्केट फरीदीपुर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ 2. सौरभ सोनी पुत्र अनिल कुमार सोनी निवासी फरीदीपुर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ 3. सूरज कुमार रावत पुत्र रामजीवन निवासी फरीदीपुर दुबग्गा काकोरी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं० 854/2020 धारा 294 भा०द०वि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

➡ थाना देवा पुलिस द्वारा एक अदद चाकू के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पंकज पुत्र इन्द्र कुमार निवासी तिन्दौला थाना देवा जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 13.10.2020 को समय करीब 08.45 बजे गढी मोड़ थाना देवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु०अ०सं० 395/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।